

## आरती श्री ऋषि मंडल

ॐ जय ऋषि मंडल यन्त्र-स्वामी जय ऋषि मंडल यन्त्रं,  
तुम को सुमरे निशादिन-निशादिन, भागत भव तन्त्रं ॥



ॐ जय ऋषि मंडल यन्त्रं ॥११॥

हींकार शुभ मध्य विराजे, गोलाकार मझार स्वामी गोलाकार।  
ध्यान करें हम निशादिन-निशादिन, होवे भवदधि पार ॥ ॐ जय..... ॥१२॥  
ध्यावे तुम को मन वच तन से, पूर्ण मनोरथ पाय-स्वामी पूर्ण मनोरथ पाय।  
रोग शोक सर्पादिक-सर्पादिक, वृश्चिक दूर भगाय ॥ ॐ जय..... ॥१३॥  
शाकिनि डाकिनी भूत पिशाचा, नाम से दूर पलाय। स्वामी नाम से दूर पलाय।  
निर्धन धन को पावे-पावे, कीरति जग में पाय ॥ ॐ जय..... ॥१४॥  
हुई सम्पदा नष्ट जिन्हों की, फिर पाई सुखदाय-स्वामी फिर पाई सुखदाय।  
नाचे कूदे गाये-गाये, मन में बहु हर्षाय ॥ ॐ जय..... ॥१५॥  
हम ऋषि मंडल की करे आरती, दीपक ले उमगाय। स्वामी दीपक ले उमगाय।  
वीर सिन्धु गुरु नावे-नावे, "सूरज" शिवपद पाय ॥ ॐ जय..... ॥१६॥

## आरती जिनवाणी माता की

ॐ जय अम्बे वाणी, माता जय अम्बे वाणी।  
तुमको निशादिन ध्यावत-२, सुरनर मुनि ज्ञानी ॥ ॐ.....  
श्री जिन गिरतैं निकसी, गुरु गौतम वाणी-स्वामी.....  
जीवन भ्रम तम नाशन-२, दीपक दरषाणी। ॐ.....  
कुमत कुलाचल चूरण वज्र सु सरधानी, स्वामी.....  
नव नियोग निक्षेपण-२, देखण दरपाणी। ॐ.....  
पातक पंक पखालन, पुण्य परम वाणी-स्वामी.....  
मोह महार्णव डूबत-२, तारण नौकाणी। ॐ.....  
लोकालोक निहारण, दिव्य नेत्र स्थानी, स्वामी.....  
निज पर भेद दिखावन-२, सूरज किरणानी ॥ ॐ.....  
श्रावक मुनि गण जननी, तुम ही गुण खानी-स्वामी.....  
सेवक लख शुभदायक-२, पावन परमाणी। ॐ.....  
ॐ जय अम्बे वाणी।

